




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 93]  
No. 93]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 30, 1979/वैशाख 10, 1901  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 30, 1979/VAISAKHA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

बाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय  
(बाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1979

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या-23 आई०टी०सी०(पो०एन०)/79

विषय :— पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न से कशीदाकारी किए हुए वस्त्रों का वर्गीकरण—सार्वजनिक सूचना संख्या -127 आई०टी०सी०(पो०एन०)/76 दिनांक 24-12-1976 का संशोधन ।

मिसिल संख्या -1/28/आई०टी०सी०/74-ई०पो०सी०(नीति०-5)

बाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की आयात व्यापार नियंत्रण, सार्वजनिक सूचना संख्या 127-आई०टी०सी०(पो०एन०)/76, दिनांक 24-12-1976 में निहित अशुद्धियों को ध्यान आकृष्ट किया जाता है । पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार 31-7-1976 से "पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के साथ कशीदाकारी किए हुए वस्त्र" मध्य आयात व्यापार नियंत्रण नीति 1976-77 की क्रम संख्या-एक्स 1.5 के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी ।

2. इस मद के वर्गीकरण पर भारत सरकार द्वारा हाल ही में पुनः विचार किया गया है । यह निश्चित किया गया है कि "पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न से कशीदाकारी किए हुए वस्त्र" अब से आगे आयात व्यापार नियंत्रण नीति 1976-77, वास्तु 02 की क्रम संख्या-एक्स 1.5 के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे और इस उत्पाद के वर्गीकरण का निश्चय उत्पाद में उपयोग की गई आधार सामग्रियों के आधार पर किया जाएगा । ये अनुदेश प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से लागू होंगे ।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi 30th April, 1979

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 23—ITC(PN)/79

Subject : Classification of Fabrics embroidered with Polyester filament yarn—Amendment of Public Notice No. 127-ITC(PN)/76, dated 24-12-1976.

F. No. 1/28/REP/K/74-EPC (Vol. V).—Attention is invited to the instructions contained in Government of India, Ministry of Commerce, Import Trade Control Public Notice No. 127 ITC(PN)/76, dated 24-12-1976. The item "Fabrics embroidered with polyester filament yarn" was classified under Sl. No. X.1.5 of ITC Policy 1976-77, Volume II, with effect from 31-7-1976, in terms of the aforesaid Public Notice.

2. The classification of this item has been reviewed recently by the Government of India. It has been decided that "Fabrics embroidered with polyester filament yarn" will henceforth not be classified under Sl. No. X.1.5 of ITC Policy 1976-77, Volume II and the classification of this product will be determined on the basis of the base material used in the product. These instructions will come into force from the date of issue of this Public Notice.

सार्वजनिक सूचना संख्या-24 आई०टी०सी०(पी०एन०)/79

PUBLIC NOTICE No. 24—ITC (PN)/79

विषय :— स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना

मिसिन संख्या-12/4/78-ई०पी०सी०— वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या-22 आई०टी०सी०(पी०एन०)/79, दिनांक 31 मार्च, 1979 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि अप्रैल, 1979 मास के दौरान उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बेचे जाने वाले शुद्ध सोने (1.000 उत्तम शुद्धता) की कीमत प्रति 10 ग्राम पर किसी भी लागू स्थानीय करों को छोड़कर 700 रुपए होगी।

2. नियति की पुनरीक्षा करने के पश्चात, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि मई, 1979 के महीने के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत रिहाई आवेग धारकों की जिस कीमत पर सोना बेचा जाएगा वह शुद्ध सोने (1.000 उत्तम शुद्धता) की प्रति 10 ग्राम पर लागू किसी भी स्थानीय करों को छोड़कर 710 रुपए (सात सौ दस रुपए मात्र) होगी।

का० वें० शेषाद्री,  
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

Subject : Gold Jewellery Export Replenishment Scheme.

F. No. 12/4/78-EPC.—Attention is invited to the Department of Commerce, Public Notice No. 22-ITC(PN)/79, dated the 31st March, 1979 notifying that the price at which the gold will be sold under the said Scheme by the State Bank of India during the month of April, 1979 would be Rs. 700 for 10 grammes of pure gold (1.000 fineness) exclusive of any local taxes applicable thereto.

2. On a review of the position, it is hereby notified that the price at which gold will be sold to the Release Order holders under the said Scheme by the State Bank of India during the month of May, 1979 would be Rs. 710 (Rupees Seven hundred and ten only) for 10 grammes of pure gold (1.000 fineness) exclusive of any local taxes applicable thereto.

K. V. SESHADRI,  
Chief Controller of Imports and Exports